


## रुड़की में फिर पकड़ा गया नकली दवाओं जखीरा

Publish Date: Fri, 21 Sep 2018 03:04 AM (IST)



संवाद सहयोगी, रुड़की: ड्रग विभाग और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने नकली दवा का जखीरा पकड़ा है। टीम ने नकली दवा की 13 पेटियां बरामद की है। जिसमें नकली कफ सीरप और टेबलेट आदि भरा हुआ है। टीम ने नकली दवा के साथ तीन आरोपितों को भी पकड़ा है।

शहर में आठ सितंबर को तीन नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़े के जाने के बाद से लगातार ड्रग विभाग की टीम गिरोह को पकड़ने के लिए सक्रिय है। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि मामले की पड़ताल के दौरान उन्हें नकली दवा कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली। गिरोह नकली दवाओं का स्टॉक निकालने की फिराक में थे। इस पर उन्होंने अपनी टीम के सदस्य को दवा खरीदने वाला बनाया और योजनाबद्ध तरीके से इस धंधे से जुड़े लोगों से संपर्क कराया। लेकिन धंधे से जुड़े लोगों ने अपने ठीये पर उसे नहीं बुलाया। उन्होंने ओवर ब्रिज के आगे एक रेस्टोरेंट के पास दवा सप्लाई करने की बात कही। इस पर टीम का सदस्य वहां पहुंच गया। साथ ही ड्रग विभाग और नारकोटिक्स विभाग की टीम के सदस्य भी आस-पास छिप गये। शाम के समय महेंद्रा जस्ट कार वहां आकर रुकी। उसके साथ दो युवक स्कूटी से मौके पर वहां गए। जैसे ही यह लोग कार की पिछली सीट और डिग्गी से दवाओं की पेट्टी निकालने लगे। उसी दौरान टीम के सदस्यों ने तीनों आरोपितों को पकड़ लिया। पेट्टियों में कफ "वग कंपनी बद्दी चंडीगढ़ के नाम पर बनाया गया नकली कफ सीरप और टेबलेट आदि थी। पकड़े गए आरोपितों में विपिन कुमार पुत्र लक्ष्मी चंद निवासी मोहम्मदपुर जट, जावेद अहमद पुत्र नासिर अहमद निवासी मोहम्मदपुर मोहनपुरा एवं महेश कुमार सैनी पुत्र अमर प्रकाश निवासी डाडा पट्टी भगवानपुर हैं। टीम में ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार नीरज कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर गढ़वाल सुधीर कुमार, नारकोटिक्स विभाग से कांस्टेबल सुनील कुमार और देशराज आदि के नाम शामिल हैं। पकड़े गए आरोपितों, नकली दवा, कार और स्कूटी कोतवाली रुड़की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने मामले की तहरीर दी है। बता दें कि आठ सितंबर को उत्तर प्रदेश की ड्रग विभाग, हरिद्वार ड्रग विभाग और प्रशासनिक टीम ने शिवपुरम, सैनिक कालोनी और रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से तीन नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी। इन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में नकली दवाएं भी बरामद हुई थी।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-dfgdfsg-18451221.html>